



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

बुधवार, 20 नवम्बर, 2019/29 कार्तिक, 1941

हिमाचल प्रदेश सरकार

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla, the 1st October, 2019

No. HHC/Estt. 3(414)/95-I.—03 days earned leave on and *w.e.f.* 03-10-2019 to 05-10-2019 with permission to prefix Gazetted holiday falling on 02-10-2019 and suffix Sundays, Dussehra holidays and Second Saturday commencing from 6th to 13th October, 2019 is hereby sanctioned in favour of Shri Baldev Singh Rana, Secretary of this Registry.

Certified that Shri Baldev Singh Rana is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri Baldev Singh Rana would have continued to officiate the same post of Secretary but for his proceeding on leave.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla, the 21st October, 2019

No. HHC/ Estt. 3(414)/95-I.—15 days commuted leave *w.e.f.* 26-08-2019 to 09-09-2019 with permission to prefix Gazetted holiday and Sunday fell on 24th & 25th August, 2019 and 08 days commuted leave *w.e.f.* 16-09-2019 to 23-09-2019 with permission to prefix Second Saturday and Sunday fell on 14th & 15th September, 2019 are hereby sanctioned, *ex-post-facto*, in favour of Shri Baldev Singh Rana, Secretary of this Registry.

Certified that Shri Baldev Singh Rana has joined the same post and at the same station from where he had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri Baldev Singh Rana would have continued to officiate the same post of Secretary but for his proceeding on leave.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla, the 25th October, 2019

No. HHC/Admn. 3(218)/86-I.—13 days earned leave on and with effect from 11-11-2019 to 23-11-2019, with permission to prefix Second Saturday and Sunday falling on 9th and 10th November, 2019 and suffix Sunday falling on 24-11-2019, is hereby sanctioned in favour of Shri Dharam Pal Sharma, Assistant Registrar of this Registry.

Certified that Shri Dharam Pal Sharma is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri Dharam Pal Sharma would have continued to officiate the same post of Assistant Registrar but for his proceeding on leave.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla, the 22nd October, 2019

No. HHC/Admn. 3(335)/92-II.—05 days commuted leave *w.e.f.* 07-09-2019 to 11-09-2019 and 02 days commuted leave for 24-09-2019 and 25-09-2019 are hereby sanctioned, *ex-post-facto*, in favour of Shri Ramesh Chand, Additional Registrar of this Registry.

Certified that Shri Ramesh Chand has joined the same post and at the same station from where he had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri Ramesh Chand would have continued to officiate the same post of Additional Registrar but for his proceeding on leave.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla, the 23rd October, 2019

No. HHC/ Estt. 3(546)/2003-I.—13 days earned leave on and *w.e.f.* 11-11-2019 to 23-11-2019 with permission to affix Second Saturday and Sundays falling on 9th, 10th & 24th November, 2019 is hereby sanctioned in favour of Shri Sanjay Thakur, Assistant Registrar of this Registry.

Certified that Shri Sanjay Thakur is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri Sanjay Thakur would have continued to officiate the same post of Assistant Registrar but for his proceeding on leave.

By order,
Sd/-
Registrar General.

हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

अधिसूचना

शिमला—171 004, 19 नवम्बर, 2019

संख्या वि०स०—विधायन—प्रा०/१—१/२०१८.—राज्यपाल महोदय का निम्नलिखित आदेश दिनांक 19 नवम्बर, 2019 सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है :—

“मैं, बंडारू दत्तात्रेय, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा के सप्तम् सत्र का आह्वान सोमवार, 9 दिसम्बर, 2019 को अपराह्न 2.00 बजे से हिमाचल प्रदेश विधान सभा भवन, तपोवन, धर्मशाला में समवेत होने के लिए करता हूँ।

बंडारू दत्तात्रेय,
राज्यपाल,
हिमाचल प्रदेश।”

आदेश द्वारा :—

यशपाल शर्मा,
सचिव,
हि० प्र० विधान सभा।

HIMACHAL PRADESH THIRTEENTH VIDHAN SABHA

NOTIFICATION

Shimla—171 004, the 19th November, 2019

No. V.S.-Legn.-Pri/1-1/2018.—The following order by the Governor of the State of Himachal Pradesh, dated the 19th November, 2019 is hereby published for general information:—

“मैं, बंडारू दत्तात्रेय, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा के सप्तम् सत्र का आह्वान सोमवार, 9 दिसम्बर, 2019 को अपराह्न 2.00 बजे से हिमाचल प्रदेश विधान सभा भवन, तपोवन, धर्मशाला में समवेत होने के लिए करता हूँ।

बंडारू दत्तात्रेय,
राज्यपाल,
हिमाचल प्रदेश।”

By order:—

YASH PAUL SHARMA,
Secretary,
H.P. Vidhan Sabha.

PUBLIC WORKS DEPARTMENT**NOTIFICATION***Shimla-171002, the 11th November, 2019*

No. PBW(C)B(1)-4/2018.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the creation of 03 (Three) posts of Tehsildar (Gazetted), Class-I in the Pay Band of ₹10300-34800+ ₹ 5000/- Grade Pay in Himachal Pradesh Public Works Department, with immediate effect.

By order,
JAGDISH CHANDER SHARMA,
Principal Secretary (PW).

कार्मिक विभाग
(नियुक्ति-III)

अधिसूचना

शिमला-2, 19 नवम्बर, 2019

संख्या पर (एपी)-सी-सी (17)-2/2018.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, शिमला, हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत या के बाहर वर्ग-III तथा वर्ग-IV के पदों पर नियुक्ति के लिए पात्रता निर्धारित करने लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं:—

1. **संक्षिप्त नाम.**—इन नियमों का संक्षिप्त नाम “हिमाचल प्रदेश वर्ग-III व वर्ग-IV के पदों पर भर्ती हेतु पात्रता, नियम, 2019” है।

2. **प्रारम्भ व प्रभाव.**—(1) ये नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

(2) इन नियमों को सरकार के किसी भी विभाग में भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत बनाए गए वर्ग-III और वर्ग-IV के पदों के भर्ती और प्रोन्नति नियमों के खण्ड 7 के साथ पढ़ा जाए।

(3) ये नियम अन्य सरकारी उपक्रमों/निगमों/बोर्डों/स्वायत्त निकायों इत्यादि पर इन्हें अंगीकृत करने पर लागू होंगे।

3. **परिभाषाएं.**—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) “संविधान” से भारत का संविधान अभिप्रेत है;

(ख) “राज्यपाल” से हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल अभिप्रेत है;

(ग) “सरकार” से हिमाचल प्रदेश की सरकार अभिप्रेत है;

(घ) “हिमाचल के स्थाई निवासी” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो समय-समय पर हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा इस प्रकार परिभाषित किया गया है।

4. भर्ती के लिए पात्रता.—(i) अभ्यर्थी, वर्ग—III के पद (पदों) पर नियुक्ति के लिए तभी पात्र होगा/होगी, यदि उसने हिमाचल प्रदेश में अवस्थित किसी स्कूल/संस्थान से दसवीं और 10+2 की परीक्षा उत्तीर्ण की हो; और वर्ग—IV के पद (पदों) पर नियुक्ति के लिए तभी पात्र होगा/होगी यदि उसने हिमाचल प्रदेश में अवस्थित किसी स्कूल/संस्थान से आठवीं या दसवीं की परीक्षा उत्तीर्ण की हो :

परन्तु यह शर्त हिमाचल प्रदेश के स्थायी निवासियों को लागू नहीं होगी।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/—
(आर० डी० धीमान),
अतिरिक्त मुख्य सचिव (कार्मिक)।

[Authoritative English Text of this Department Notification No. Per (AP)-C-C (17)-2/2018 dated 19th November, 2019 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

PERSONNEL DEPARTMENT (AP-III)

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 19th November, 2019

No. Per (AP)-C-C (17)-2/2018.— In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to frame the following Rules to determine the eligibility for appointment to Class-III and Class IV posts within or outside the purview of the Himachal Pradesh Public Service Commission, Shimla, Himachal Pradesh Staff Selection Commission, Hamirpur, as under:—

1. Short title.—These rules may be called “The Himachal Pradesh Eligibility for Appointment to Class-III and Class-IV Posts, Rules, 2019.”

2. Commencement and Effect.—(1) These rules shall come into force with effect from the date of publication in the official Gazette (E-Gazette) H.P.

(2) These rules may be read with Clause 7 of the Recruitment and Promotion Rules framed under Article 309 of the Constitution of India in any Government Department for any Class-III and Class-IV posts.

(3) These Rules shall also apply to other Government undertakings/Corporations/Board/Autonomous Bodies etc. subject to adoption thereof.

3. Definitions.—In these Rules, unless the context otherwise requires:—

(a) “Constitution” means the Constitution of India;

- (b) “Governor” means the Governor of Himachal Pradesh;
- (c) “Government” means the Government of Himachal Pradesh;
- (d) “Bonafide Himachali” means a person, who has been defined as such by the Government of Himachal Pradesh from time to time.

4. Eligibility for recruitment.— A candidate shall be eligible for appointment to Class-III post(s), if he/she has passed Matriculation and 10+2 and for Class-IV post(s), if he/she has passed Middle or Matriculation from any School/Institution situated within Himachal Pradesh:

Provided this condition shall not apply to Bonafide Himachalis.

By order,
Sd/-
(R. D. DHIMAN),
Additional Chief Secretary (Personnel).

ब अदालत श्री आर०एस० बेदी, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, ममलीग,
तहसील कण्डाघाट, जिला सोलन, हि० प्र०

श्री देव राज पुत्र मेद राम, निवासी गांव धान्दो, डाकघर सायरी, उप-तहसील ममलीग, तहसील कण्डाघाट, जिला सोलन, हि० प्र०।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना—पत्र बराये राजस्व अभिलेख में जाति दुरुस्ती बारे।

अदालत हजा में श्री देव राज पुत्र मेद राम, निवासी गांव धान्दो, डाकघर सायरी, उप-तहसील ममलीग, तहसील कण्डाघाट, जिला सोलन, हि० प्र० ने दिनांक 11-09-2019 को अपनी जाति दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी ने व्यक्त किया है कि उसकी पैतृक जाति वर्ष 1915 के अनुसार शजरा नस्व में जाति भाट बलेसर है, परन्तु राजस्व रिकार्ड पटवार वृत्त सायरी में उसकी जाति वर्ष 1971-72 के शजरा नस्व में भाट वलीमर दर्ज की गई है जोकि गलत है को दुरुस्त किया जाये।

अतः सर्वसाधारण को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री देव राज पुत्र मेद राम, निवासी गांव धान्दो, डाकघर सायरी, उप-तहसील ममलीग, तहसील कण्डाघाट, जिला सोलन, हि० प्र० सव्य व पैतृक जाति भाट बलेसर है को दुरुस्त करने बारे किसी को उजर/एतराज हो तो इस इश्तहार के जारी होने के 30 दिन के भीतर लिखित/मौखिक असालतन/वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रस्तुत कर सकता है। यदि उक्त समय अवधि के भीतर कोई एतराज प्राप्त नहीं होता है तो राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी की जाति भाट वलीमर के स्थान पर भाट बलेसर दर्ज करने बारे आदेश जारी किये जाएंगे।

आज दिनांक 07-10-2019 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, ममलीग,
तहसील कण्डाघाट, जिला सोलन, हि० प्र०।